

**SET-1****Series BVM/3**कोड नं. **58/3/1**
Code No.

रोल नं.

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ **15** हैं।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में **24** प्रश्न हैं।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
- Please check that this question paper contains **15** printed pages.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains **24** questions.
- **Please write down the Serial Number of the question before attempting it.**
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

अर्थशास्त्र**ECONOMICS**

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 80

Maximum Marks : 80

58/3/1

1

P.T.O.



सामान्य निर्देश:

- (i) दोनों खण्डों के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं।
- (iii) प्रश्न संख्या 1 – 4 तथा 13 – 16 अति लघूत्तरात्मक प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक का 1 अंक है। इनका प्रत्येक का उत्तर एक वाक्य में ही अपेक्षित है।
- (iv) प्रश्न संख्या 5 – 6 और 17 – 18 लघूत्तरात्मक प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 3 अंक हैं। प्रत्येक का उत्तर सामान्यतः 60 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (v) प्रश्न संख्या 7 – 9 और 19 – 21 भी लघूत्तरात्मक प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 4 अंक हैं। प्रत्येक का उत्तर सामान्यतः 70 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (vi) प्रश्न संख्या 10 – 12 और 22 – 24 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 6 अंक हैं। प्रत्येक का उत्तर सामान्यतः 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (vii) उत्तर संक्षिप्त तथा तथ्यात्मक होने चाहिए तथा यथासंभव ऊपर दी गई शब्द सीमा के अंतर्गत ही दिए जाने चाहिए।

General Instructions :

- (i) **All** questions in both the sections are compulsory.
- (ii) Marks for questions are indicated against each question.
- (iii) Question Nos. 1 – 4 and 13 – 16 are very short-answer questions carrying 1 mark each. They are required to be answered in **one sentence** each.
- (iv) Question Nos. 5 – 6 and 17 – 18 are short-answer questions carrying 3 marks each. Answers to them should normally not exceed 60 words each.
- (v) Question Nos. 7 – 9 and 19 – 21 are also short-answer questions carrying 4 marks each. Answers to them should normally not exceed 70 words each.
- (vi) Question Nos. 10 – 12 and 22 – 24 are long-answer questions carrying 6 marks each. Answers to them should normally not exceed 100 words each.
- (vii) Answers should be brief and to the point and the above word limits should be adhered to as far as possible.




खण्ड अ
(व्यष्टि अर्थशास्त्र)
SECTION A
(MICROECONOMICS)

1. उत्पादन संभावना वक्र (पी.पी.सी.) उस अवस्था में मूल-बिंदु के नतोदर होगा, यदि सीमांत अवसर लागत : (सही विकल्प का चयन करें)
- (क) बढ़ती हुई हो
(ख) घटती हुई हो
(ग) स्थिर हो
(घ) ऋणात्मक हो

1

अथवा

दिए गए चित्र में X_1, Y_1 व X_2, Y_2 एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के दो भिन्न समयकालों, समयकाल 1 तथा समयकाल 2 की उत्पादन संभावना सीमाएँ प्रस्तुत करते हैं। A_1 तथा A_2 , समयकाल 1 तथा समयकाल 2 में क्रमशः वास्तविक उत्पादन प्रस्तुत करते हैं। P_1 तथा P_2 , समयकाल 1 तथा समयकाल 2 में क्रमशः संभावित उत्पादन की मात्रा प्रस्तुत करते हैं।



दोनों समय अवधियों के बीच आर्थिक विकास का मापन निम्नलिखित बिन्दुओं के बीच चलन से दर्शाया जा सकता है : (सही विकल्प का चयन करें)

1

- (क) P_1 से P_2
(ख) A_1 से A_2
(ग) A_1 से P_1
(घ) A_2 से P_2




A production possibility curve (PPC) would be concave to the origin if marginal opportunity cost is : (Choose the correct alternative)

- (a) Increasing
- (b) Decreasing
- (c) Constant
- (d) Negative

OR

In the given figure X_1 , Y_1 and X_2 , Y_2 are production possibility frontiers for a hypothetical economy in two different time periods, Period 1 and Period 2. A_1 and A_2 , represent actual outputs in Period 1 and Period 2 respectively. P_1 and P_2 , represent potential outputs in Period 1 and Period 2 respectively.



The economic growth over the two periods would be represented by movement from : (Choose the correct alternative)

- (a) P_1 to P_2
- (b) A_1 to A_2
- (c) A_1 to P_1
- (d) A_2 to P_2



2. आगत-निर्गत समतल में सीमांत उत्पाद वक्र की आकृति _____ रूप की होती है :
(सही विकल्प का चयन करें)

1

- (क) 'U' आकार के वक्र के
- (ख) उल्टे 'U' आकार के वक्र के
- (ग) उल्टे 'S' आकार के वक्र के
- (घ) 'S' आकार के वक्र के

The marginal product curve in the input-output plane, looks like _____ : (Choose the correct alternative)

- (a) a 'U' shaped curve
- (b) an inverse 'U' shaped curve
- (c) an inverse 'S' shaped curve
- (d) an 'S' shaped curve

3. यदि वस्तु X की आपूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, वस्तु X की कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन से अधिक है, तो आपूर्ति की कीमत लोच का गुणक _____ होगा :
(सही विकल्प का चयन करें)

1

- (क) $E_s = 1$
- (ख) $E_s < 1$
- (ग) $E_s = 0$
- (घ) $E_s > 1$

If the percentage change in quantity supplied of commodity X is more than the percentage change in price of the commodity X, the coefficient of price elasticity of supply would be _____ : (Choose the correct alternative)

- (a) $E_s = 1$
- (b) $E_s < 1$
- (c) $E_s = 0$
- (d) $E_s > 1$



4. यदि किसी वस्तु की 4 इकाइयों के उत्पादन पर औसत स्थिर लागत ₹ 60 आती है, तो उस वस्तु की 5 इकाइयों के लिए कुल स्थिर लागत _____ होगी। (रिक्त स्थान की पूर्ति करें)

1

अथवा

परिवर्ती लागत के कोई दो उदाहरण बताइए।

1

If the average fixed cost of producing 4 units of output is ₹ 60, then the value of total fixed cost for producing 5 units will be _____. (Fill up the blank)

OR

State any two examples of variable cost.

5. “क्या उत्पादन किया जाए” की केन्द्रीय समस्या को संक्षेप में समझाइए।
Explain briefly the central problem of “What to produce”.

3

6. एक विवेकशील उपभोक्ता केवल दो वस्तुओं, वस्तु X व वस्तु Y का उपभोग करती है, जिनकी कीमतें क्रमशः ₹ 4 व ₹ 5 हैं। उसकी कुल मौद्रिक आय ₹ 40 है। दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1, 2

- (क) उपभोक्ता के बजट रेखा समीकरण का उल्लेख कीजिए।
(ख) बजट रेखा की प्रवणता क्या होगी ?

अथवा

एक विवेकशील उपभोक्ता केवल दो वस्तुओं, वस्तु X व वस्तु Y का उपभोग करती है, यदि वर्तमान में वह $\left(\frac{MU_x}{P_x} < \frac{MU_y}{P_y} \right)$ की परिस्थिति में है, तो उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करने के लिए उसका संभावित व्यवहार बताइए।

3

A rational consumer is consuming only two goods, Good X and Good Y with ₹ 4 and ₹ 5 as their respective prices. Her total money income is ₹ 40. Answer the following questions, based on the given information :

- (a) State the consumer's budget line equation.
(b) What would be the slope of the budget line ?

OR

If a rational consumer is consuming only two Goods X and Y, state her likely behaviour to attain consumer's equilibrium if she faces a situation

where $\left(\frac{MU_x}{P_x} < \frac{MU_y}{P_y} \right)$.



7. दी गई निम्नलिखित अनुसूची के आधार पर, बताइए कि उत्पादन की किस मात्रा पर फर्म संतुलन में होगी व क्यों ।

4

मात्रा (इकाइयों में)	कीमत (₹ में)	कुल लागत (₹ में)
0	20	10
1	20	50
2	20	80
3	20	100
4	20	105
5	20	125
6	20	150

Given the following schedule, state at which level of output, will the firm be at equilibrium and why.

Quantity (in units)	Price (in ₹)	Total Cost (in ₹)
0	20	10
1	20	50
2	20	80
3	20	100
4	20	105
5	20	125
6	20	150

8. 'निम्नतम निर्धारित कीमत' से आप क्या समझते हैं ? उपयुक्त उदाहरण का प्रयोग करते हुए व्याख्या कीजिए ।

4

अथवा

'उच्चतम निर्धारित कीमत' से आप क्या समझते हैं ? उपयुक्त उदाहरण का प्रयोग करते हुए व्याख्या कीजिए ।

4

What is meant by 'Price Floor' ? Explain using a suitable example.

OR

What is meant by 'Price Ceiling' ? Explain using a suitable example.



9. यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि के परिणामस्वरूप इस वस्तु की माँग 40 इकाई से घट कर 30 इकाई रह जाती है, वस्तु की माँग की कीमत लोच के गुणक की गणना कीजिए । माँग की कीमत लोच की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए । 4

अथवा

वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि का “वायु शोधकों” (Air Purifiers) की बाज़ार माँग पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या कीजिए । (रेखाचित्र का प्रयोग कीजिए) 4

If the price of a commodity rises by 10% and its quantity demanded falls from 40 units to 30 units, calculate coefficient of price elasticity of demand. Comment on the nature of price elasticity of demand.

OR

Explain the effect of the increase in the level of air pollution, on the market demand for “Air Purifiers”. (Use diagram)

नोट : निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न संख्या 9 (विकल्प) के स्थान पर है :

Note : The following question is for the **Visually Impaired Candidates** only, in lieu of Q. No. 9 (Alternative) :

वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि का “वायु शोधकों” (Air Purifiers) की बाज़ार माँग पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या कीजिए । 4

Explain the effect of the increase in the level of air pollution, on the market demand for “Air Purifiers”.

10. साधन के बढ़ते प्रतिफल से क्या अभिप्राय है ? साधन के बढ़ते प्रतिफल के किन्हीं दो कारणों की चर्चा कीजिए । 6

What is meant by increasing returns to a factor ? Discuss any two reasons behind increasing returns to a factor.



11. रेखाचित्र का प्रयोग करते हुए, अनधिमान वक्र की निम्नलिखित विशेषताओं की संक्षेप में चर्चा कीजिए : 3, 3

(क) मूल-बिन्दु की ओर उत्तल वक्र

(ख) बाएँ से दाएँ नीचे की ओर ढालू वक्र

Discuss briefly the following properties of an indifference curve, using diagram :

(a) Convexity to origin

(b) Downward sloping from left to right

नोट : निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न संख्या 11 के स्थान पर है :

Note : The following question is for the **Visually Impaired Candidates** only, in lieu of Q. No. 11 :

अनधिमान वक्र की निम्नलिखित विशेषताओं की संक्षेप में चर्चा कीजिए : 3, 3

(क) मूल-बिन्दु की ओर उत्तल वक्र

(ख) बाएँ से दाएँ नीचे की ओर ढालू वक्र

Discuss briefly the following properties of an indifference curve :

(a) Convexity to origin

(b) Downward sloping from left to right

12. (क) “माँग वक्र ही फर्म का औसत आगम (AR) वक्र होता है।” क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? अपने उत्तर के समर्थन में, कारण देते हुए संक्षेप में चर्चा कीजिए ।
(ख) किसी वस्तु का बाज़ार संतुलन की स्थिति में है । वस्तु की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है जबकि वस्तु की माँग में कोई परिवर्तन नहीं होता । साम्य कीमत तथा साम्य मात्रा पर परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा कीजिए । 3, 3

अथवा

एकाधिकारात्मक प्रतियोगी बाज़ार रूप की तीन प्रमुख विशेषताओं का विवरण दीजिए । 6

(a) “Demand curve is the Average Revenue (AR) curve of a firm.” Do you agree ? Discuss briefly, with reason in support of your answer.

(b) The market for a commodity is in equilibrium. The supply of the commodity increases without any corresponding change in the demand for the commodity. Discuss the impact of the change on the equilibrium price and equilibrium quantity.

OR

Elaborate three main features of a monopolistic competitive form of market.



खण्ड ब
(समष्टि अर्थशास्त्र)
SECTION B
(MACROECONOMICS)

13. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार, उपभोक्ता कीमत सूचकांक (CPI) के आधार पर इस वर्ष कीमत वृद्धि की दर पिछले वर्ष की 8% की तुलना में 5% रह जाएगी। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन इस परिस्थिति को प्रस्तुत करता है ? 1

- (क) CPI में कमी
 (ख) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष CPI की वृद्धि दर कम रही है
 (ग) CPI का स्थिर रहना
 (घ) उपर्युक्त में से कोई भी नहीं

According to a report forwarded by the Reserve Bank of India, there was a fall in rate of inflation as measured by Consumer Price Index (CPI) on year-on-year basis to 5% from 8% in the previous year. Which of the following statements represents the situation ?

- (a) CPI has fallen
 (b) CPI has risen at a rate lower than the preceding year
 (c) CPI is constant
 (d) None of the above

14. अर्थव्यवस्था में गृहस्थों द्वारा विदेशी विनिमय की माँग के कोई दो स्रोत बताइए। 1
 Name any two sources of demand for foreign exchange by households in an economy.

15. किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन में स्वायत्त लेनदेनों को परिभाषित कीजिए। 1

अथवा

- किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन में समंजन लेनदेनों को परिभाषित कीजिए। 1
 Define autonomous transactions in Balance of Payments of an economy.

OR

Define accommodating transactions in Balance of Payments of an economy.

16. 'अनैच्छिक बेरोज़गारी' की अवधारणा की परिभाषा दीजिए। 1
 Define the term "Involuntary Unemployment".

17. यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 20% है और आय के सभी स्तरों पर समान रहती है तथा स्वायत्त उपभोग ₹ 100 करोड़ है, तो दी गई काल्पनिक अर्थव्यवस्था के उपभोग फलन की रचना कीजिए। 3

If Marginal Propensity to Save is 20% and is constant at all levels of income and the autonomous consumption is ₹ 100 crores, construct consumption function of the given hypothetical economy.



18. अंतिम वस्तुओं एवं मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए । उपयुक्त उदाहरण दीजिए ।

3

अथवा

यदि किसी इलाके में, नगर निगम द्वारा एक पार्क विकसित किया जाता है, इस पार्क की दोनों, सकारात्मक तथा ऋणात्मक बाह्यताएँ होंगी । इन दोनों प्रकार की बाह्यताओं का कारण सहित एक-एक उदाहरण दीजिए ।

3

Distinguish between final goods and intermediate goods. Give suitable examples.

OR

If in a locality, a new park is developed by the municipal corporation, it will have externalities, both positive and negative. State one example each of both types of externalities with reason.

19. हाल के समय में भारतीय रुपया (₹) अमेरिकी डॉलर (\$) के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया था । भारतीय आयात पर इसके पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा कीजिए ।

4

अथवा

“व्यापार घाटे की स्थिति में एक देश का भुगतान संतुलन चालू खाते में अतिरेक की स्थिति में नहीं हो सकता ।” क्या आप इस दिए गए कथन से सहमत हैं ? कारण सहित चर्चा कीजिए ।

4

In recent times the Indian Rupee (₹) depreciated to an all time low against the US dollar (\$). Discuss its impact on India's Imports.

OR

“A country with trade deficit cannot have current account surplus in its Balance of Payments.” Do you agree with the given statement ? Discuss with reason.



20. उपयुक्त रेखाचित्र का प्रयोग करते हुए स्फीतिकारी अंतराल की स्थिति स्पष्ट कीजिए ।
स्फीतिकारी अंतराल के समाधान के लिए कोई दो राजकोषीय उपाय सुझाइए । 2, 2
- Show inflationary gap using a well labelled diagram. Suggest any two fiscal measures to correct the situation of inflationary gap.

नोट : निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न संख्या 20 के स्थान पर है :

Note : The following question is for the **Visually Impaired Candidates** only, in lieu of Q. No. 20 :

स्फीतिकारी अंतराल का क्या तात्पर्य है ? स्फीतिकारी अंतराल के समाधान के लिए कोई दो राजकोषीय उपाय सुझाइए । 2, 2

What is meant by inflationary gap ? Suggest any two fiscal measures to correct the situation of inflationary gap.

21. बताइए कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही अथवा ग़लत है । उपयुक्त कारण दीजिए । 2, 2

(क) कीन्स के रोज़गार सिद्धांत के अनुसार, केवल साम्य अवस्था में एक अर्थव्यवस्था पूर्ण रोज़गार की स्थिति प्राप्त करती है ।

(ख) दो-क्षेत्रक अर्थव्यवस्था में, यदि उपभोग एवं आय बराबर हैं, तब औसत बचत प्रवृत्ति शून्य के बराबर होगी ।

State which of the following statements are *true* or *false*. Give valid reasons.

- (a) According to Keynesian theory of employment, the state of full employment is obtained only when the economy is in equilibrium.
- (b) In a two-sector economy, if consumption is equal to income, average propensity to save will be zero.



22. (क) सरकार की राजस्व प्राप्तियों व पूँजीगत प्राप्तियों में विभेद कीजिए ।

(ख) 'विनिवेश' तथा 'विदेशों से प्राप्त ऋण' को क्या सरकार की राजस्व प्राप्तियों में जोड़ा जाता है ? कारण बताइए ।

4, 2

अथवा

दिए गए निम्नलिखित आँकड़ों से (i) राजस्व घाटे, व (ii) राजकोषीय घाटे के मान की गणना कीजिए :

6

क्र. सं.	विवरण	राशि (करोड़ ₹ में)
1	कर आगम	1,000
2	गैर-कर आगम	150
3	सरकार द्वारा निवल ऋण	780
4	विनिवेश प्राप्तियाँ	50
5	राजस्व व्यय	1,500
6	पूँजीगत व्यय	480

- (a) Distinguish between revenue receipts and capital receipts of the government.
- (b) Do 'disinvestment' and 'loan proceeds from abroad' constitute revenue receipts of the government ? Give reason.

OR

Given the following data estimate the values of (i) Revenue deficit, and (ii) Fiscal deficit :

S.No.	Particulars	Amount (in ₹ Crores)
1	Tax Revenue	1,000
2	Non-Tax Revenue	150
3	Net Borrowings by Government	780
4	Disinvestment Proceeds	50
5	Revenue Expenditure	1,500
6	Capital Expenditure	480



23. एक काल्पनिक संख्यात्मक उदाहरण द्वारा वाणिज्यिक बैंक द्वारा मुद्रा सृजन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए ।

6

Explain the process of money creation by a commercial bank using a hypothetical numerical example.

24. दिए गए निम्नलिखित आँकड़ों के आधार पर, 'सरकारी अंतिम उपभोग व्यय' तथा 'स्व-नियोजित की मिश्रित आय' का मूल्य ज्ञात कीजिए :

6

क्र. सं.	विवरण	राशि (करोड़ ₹ में)
i	राष्ट्रीय आय	7,100
ii	सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	?
iii	सकल घरेलू पूँजी निर्माण	1,000
iv	स्व-नियोजित की मिश्रित आय	?
v	निवल अन्त्यक्ष कर	200
vi	विदेश से प्राप्त निवल साधन आय	100
vii	निजी अंतिम उपभोग व्यय	4,000
viii	स्थिर पूँजी का उपभोग	300
ix	लाभ	120
x	मज़दूरी व वेतन	1,500
xi	निवल निर्यात	500
xii	प्रचालन अधिशेष	3,000



Given the following data, find the values of 'Government Final Consumption Expenditure' and 'Mixed Income of Self-Employed' :

S.No.	Particulars	Amount (in ₹ Crores)
i	National Income	7,100
ii	Government Final Consumption Expenditure	?
iii	Gross Domestic Capital Formation	1,000
iv	Mixed Income of Self-Employed	?
v	Net Indirect Taxes	200
vi	Net Factor Income from Abroad	100
vii	Private Final Consumption Expenditure	4,000
viii	Consumption of Fixed Capital	300
ix	Profits	120
x	Wages and Salaries	1,500
xi	Net Exports	500
xii	Operating Surplus	3,000